

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2024 वैशाख 13 शक 1946

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 03-01-2024

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़-चौकी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कोण्डागांव	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
15.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सक्ती	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30.	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
31.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
32.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
33.	जशपुर	फरसाबहार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— कुछ जिलों में रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— बेमेतरा, बलरामपुर, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— कुछ जिलों में फसल कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर व गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, कोरबा व सूरजपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर व सुकमा में धान, मक्का व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल व गन्ना फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ एवं कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में धान, अरहर, कोदो-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, चना, मटर, गेहूँ, राई, सरसों, अलसी, मसूर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान, कोदो-कुटकी, अरहर, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाड़ी, गन्ना व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान व तुअर फसल की हालत सामान्य है.

6. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03-01-2024

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धरसीवा	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. आरंग	..				
4. मंदिर हसौद	..				
5. अभनपुर	..				
6. गोबरानवापारा	..				
7. तिल्दा	..				
8. खरोरा	..				
<b>जिला-बलौदा-</b>	मिलीमीटर				
<b>बाजार-भाटापारा</b>					
1. बलौदाबाजार	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. पलारी	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..				
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. सुहेला	..				
7. कसडोल	..				
8. टुण्डरा	..				
9. सोनाखान	..				
<b>जिला-गरियाबंद</b>	मिलीमीटर				
<b>बिन्धानवागढ़</b>					
1. गरियाबंद	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
6. अमलीपदर	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..	लगाई जा रही है एवं कहीं	4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..	कहीं रोपाई का कार्य जारी	जारी है, गेहूँ, मक्का, उड़द, मूंगमोठ,	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..	है.	कुल्थी, लाख, चना, मटर, मसूर,		
5. भखारा	..		राई, अलसी व अंबाडी फसल की		
6. कुकरेल	..		हालत सामान्य है.		
7. बेलरगांव	..		(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. रबी फसल की जुताई व	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..	कार्य जारी है.	4. (1) तुअर फसल की कटाई का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. देवकर	..		कार्य जारी है, एवं फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. बेरला	..		हालत सामान्य है.		
5. भिभौरी	..		(2) ..		
6. बेमेतरा	..				
7. नवागढ़	..				
8. नांदघाट	..				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ग्रीष्मकालीन व रबी फसल	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरूर	..	की बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डौण्डी	..				
5. डौण्डीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
7. देवरी	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. डोंगरगढ़	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लाल बहादुर नगर	..	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. राजनांदगांव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुरिया	..				
5. डोंगरगांव	..				
<b>जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई</b>	मिलीमीटर				
1. खैरागढ़	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छुईखदान	..	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गण्डई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. साल्हेवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी</b>	मिलीमीटर				
1. अं.चौकी	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मोहला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मानपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. औंधी	..				
5. खड़गवां	..				
<b>जिला-कवर्धा-कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पंडरिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बोडला	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सहसपुरलोहारा	..				
5. रेंगाखारकला	..				
6. कुंडा	..				
7. पिपरिया	..				
<b>जिला-बस्तर</b>					
1. जगदलपुर	..	2. रबी फसल की बोनी व रोपाई का कार्य अंतिम चरण पर है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नानगुर	..		4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य अंतिम चरण पर है, धान, मक्का, उड़द, मक्का, गेहूँ व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बस्तर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.	चारा पर्याप्त.	
4. भानपुरी	..				
5. बकावण्ड	..				
6. लोहण्डीगुड़ा	..				
7. बास्तानार	..				
8. तोकापाल	..				
9. दरभा	..				
<b>*जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. मर्दापाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. माकड़ी	..		(2) ..		
4. फरसगांव	..				
5. केशकाल	..				
6. धनोरा	..				
7. बड़ेराजपुर	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छोटे डोंगर	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूँ, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, मसूर, बटरा, अलसी, राई-सरसों सूर्यमुखी व गन्ना फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर-</b> <b>उत्तर बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
8. सरोना	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा-</b> <b>दक्षिण बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..		ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर,		
5. बड़ेबचेली	..		उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल		
6. बारसूर	..		की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. छिन्दगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सुकमा	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गादीरास	..		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कोन्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. तोंगपाल	..				
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	..		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कुटरू	..				
5. भोपालपटनम्	..				
6. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
6. सीपत	..				
7. बोदरी	..				
8. बेलगहना	..				
9. बेलतरा	..				
10. रतनपुर	..				
11. सकरी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही</b>	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रारोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..				
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. रबी फसल की जुताई व	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	..				
<b>जिला-जांजगीर- चाँपा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. शिवरीनारायण	..				
8. बम्हनीडीह	..				
9. सारागांव	..				
<b>जिला-सक्ती</b>	मिलीमीटर				
1. सक्ती	..	2. रबी फसल की जुताई एवं	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. जैजेपुर	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मालखरौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डभरा	..				
5. नया बाराद्वार	..				
6. अड़भार	..				
7. हसौद	..				
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. रबी फसल की जुताई एवं	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैसमा	..	रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. करतला	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटघोरा	..				
5. दर्दी	..				
6. पाली	..				
7. हरदीबाजार	..				
8. पोड़ीउपरोड़ा	..				
9. पसान	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लुण्ड्रा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. सीतापुर	..				
5. लखनपुर	..				
6. उदयपुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
<b>जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. प्रतापपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सूरजपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. ओड़गी	..		(2) ..		
4. भैयाथान	..				
5. रामानुजनगर	..				
6. प्रेमनगर	..				
7. लटोरी	..				
8. बिहारपुर	..				
9. भटगांव	..				
<b>जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
<b>जिला-कोरिया-बैकुंठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) अरहर, मटर, राई, सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, लाख-तिवड़ा व अलसी फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पटना	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. पोड़ी-बचरा	..				
<b>जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर</b>	मिलीमीटर				
1. मनेन्द्रगढ़	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खड़गावां	..		4. (1) अरहर, रमतिल, कुल्थी, राई-सरसों, चना, मटर, गेहूँ, अलसी, मसूर व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चिरमिरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. केलहारी	..				
5. भरतपुर	..				
6. कोटाडोल	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख, तिवाड़ा, मसूर, मटर व अन्य फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. घरघोड़ा	..				
5. तमनार	..				
6. लैलूंगा	..				
7. मुकडेगा	..				
8. धरमजयगढ़	..				
9. छाल	..				
10. कापू	..				
<b>जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. सारंगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बरमकेला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरिया	..		(2) ..		
4. बिलाईगढ़	..				
5. भटगांव	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान व तुअर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				
9. सन्ना	..				

( के. डी. उज्जवल )

सहा.-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर.